

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2022 — ज्येष्ठ 26, शक 1944

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-14-2/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2021-22/1/1445

रायपुर, दिनांक 16 जून 2022

श्री नरेन्द्र देवदास, अभ्यर्थी पार्षद पद निर्वाचन माह दिसम्बर 2021-जनवरी 2022, नगर पालिका परिषद् जामुल, जिला - दुर्ग, (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 16 जून, 2022.

- यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला दुर्ग, छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 22-01-2022 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिका परिषद् जामुल, जिला दुर्ग के दिसम्बर-2021-जनवरी, 2022 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 23 दिसम्बर 2021 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिका परिषद् जामुल, जिला दुर्ग के पार्षद पद के निर्वाचन दिसम्बर 2021-जनवरी 2022 में वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 23 दिसम्बर 2021 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 23-2-2022 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरहित किया जाए. कारण बताओ सूचना दिनांक 11-5-2022 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना की तामीली दिनांक से निर्धारित समयावधि के भीतर एवं उसके उपरान्त आजपर्यन्त अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास द्वारा कोई लिखित जवाब/अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया; अतः प्रकरण में यह मानकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 22-1-2022 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिका परिषद् जामुल जिला दुर्ग के वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया। यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 22 जनवरी 2022 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद् जामुल जिला दुर्ग के दिसम्बर 2021-जनवरी 2022 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -06 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संबंध में कोई जवाब ही प्रस्तुत किया। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र देवदास को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 16 जून, 2022 को जारी किया गया।

हस्ता./-
(ठाकुर राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.